



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2015/वैशाख 31, 1937

No. 326]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2015/VAISAKHA 31, 1937

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2015

**सा.का.नि. 410(अ).**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, प्रवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम 1988, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, विपणन स्कीमें प्रवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम 1986, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, प्रवर श्रेणी लिपिक (कैशियर), भर्ती नियम 1992, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, (स्टोरकीपर) भर्ती नियम 1992 और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (स्टोरकीपर कालीन बुनाई प्रशिक्षण—सह-सेवा केंद्र) भर्ती नियम 1980, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छोड़ी गई मदों को छोड़कर, राष्ट्रपति, एतद्वारा वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:- नामशः

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (1).**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, प्रवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 हैं।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड-पे अथवा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
- भर्ती की विधि, आयु सीमा, अहर्ता आदि.**—भर्ती की विधि, आयु सीमा, अहर्ता और इससे संबंधी अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- निरर्हता :** वह व्यक्ति :  
(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या  
(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या चयनपद या अचयन पद हैं	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रवर श्रेणी लिपिक	87* (2015) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपये +2400 रुपये का ग्रेड वेतन	अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नतों के मामले में भी लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती अथवा प्रौन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/समाहित द्वारा और विभिन्न विधि द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रौन्नति/प्रतिनियुक्ति/समाहित करने के द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिसके द्वारा प्रौन्नति/प्रतिनियुक्ति/समाहित किया जाएगा	यदि विभागीय प्रौन्नति समिति मौजूद है, तो उसका संघटन क्या है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
शैक्षणिक अर्हता-हां, आयु - नहीं	दो वर्ष	अवर श्रेणी लिपिक के कैडर से 100% प्रौन्नति जिसमें अर्हक सेवा आठ वर्ष हो।	कॉलम-(10) में विनिर्दिष्टानुसार	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण एवं पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे:- (i) अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) अथवा निदेशक (हस्तशिल्प) - अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (प्रशासन) -सदस्य (iii) उप निदेशक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि - सदस्य (iv) केन्द्र सरकार विभाग का	लागू नहीं

				कोई भी अधिकारी	समूह 'क' - सदस्य	
--	--	--	--	-------------------	---------------------	--

[फा. सं. ए-20020/93/2012-प्रशा.]

नवराज गोयल, अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

## MINISTRY OF TEXTILES

[Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2015

**G.S.R. 410(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) Upper Division Clerk, Recruitment Rules 1988, the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) Marketing Schemes Upper Division Clerk Recruitment Rules 1986, the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Upper Division Clerks (Cashier), Recruitment Rules 1992, the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) (Storekeeper) Recruitment Rules 1992 and All India Handicrafts Board (Storekeeper Carpet Weaving Training-cum-service Centres) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), namely:-

- Short title and commencement (1).**—These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts) Upper Division Clerk Group 'C' recruitment, 2015.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay or pay scales.**—The number of the said posts, its classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached there to shall be specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person,-  
(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(ii) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule, shall be eligible for appointment to the said post:
- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect the reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band & Grade Pay of Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit	Educational & other Qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upper Division Clerk	87 <sup>(*)</sup> (2015) <sup>(*)</sup> subject to variation depending upon workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB-1 (Rs. 5200 – 20200) + Grade Pay of Rs. 2400/-	Non-selection	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational	Period of probation,	Method of recruitment,	of	In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists, what its composition	Circumstances in which Union
-----------------------------	----------------------	------------------------	----	---------------------------	--	------------------------------

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	if any	whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and %age of vacancies to be filled by various methods.	promotion/ deputation/ absorption Grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made		Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Educational Qualification – Yes Age – No	Two years	100% promotion from the cadre of Lower Division Clerk having qualifying service of eight years.	As specified in Column (10)	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:  (i) Additional Development Commissioner (HC)/ Director (HC) – Chairman (ii) Deputy Director (Administration) – Member (iii) Deputy Director representing Scheduled Caste/Scheduled Tribe – Member (iv) A Group 'A' Officer from any other Ministry/ Department of the Central Government – Member	Not applicable

[F. No. A-20020/93/2012-Admn.]

NAVRAJ GOYAL, Addl. Development Commissioner (HC)